



Helpline Number :+91-11-23978046 Toll Free : 1075 Helpline Email ID : ncov2019@gov.in States & Union Territories (View pdf)

Arogya Setu 



- Resources
- State Data
- Graphics

COVID-19 INDIA
as on : 06 May 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

For any technical enquiry with respect to COVID19, you may kindly email on technicalquery.covid19@gov.in
Arogya Setu IVRS 1921

Latest Updates

06.05.2020

Railway Coaches as COVID Care Centre: Guidance document on appropriate management of suspect-confirmed cases of COVID-19 **NEW**

COVID-19 Statewise Status (Click to expand)

Resources

Travel Advisories	20.03.2020 Instructions to all major and minor ports for dealing with(COVID-19)
Behavioural Health : Psycho-Social toll free helpline-08046110007	19.03.2020 Additional Travel Advisory
Citizens	18.03.2020 Standard Operating Procedure for Passenger Movement post Disembarkation
Hospitals	17.03.2020 Additional Travel Advisory
Training Material	16.03.2020 Additional Travel Advisory
States / Departments / Ministries	14.03.2020 Restrictions on International passenger traffic through Land Check Posts
Employees	13.03.2020 Restrictions on International passenger traffic through land check posts-COVID 19
Awareness Material	
Inspirational series on Healthcare Service Personnel	

Awareness

English Hindi



Ministry of Health and Family Welfare
Government of India

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



There is enough of everything, everyday for everyone
Don't Panic | Don't Rush | Don't Overstock



Maintain at least 1 metre distance in market places, medical stores, hospitals, etc.



Show patience and keep calm while shopping for essential goods/medical supplies



Avoid frequent trips to the market to buy groceries/medical supplies



Avoid shaking hands and hugging as a matter of greeting



Avoid non-essential social gatherings at home



Don't allow visitors at home or visit someone else's home

Observe social distancing at all times

If you have symptoms like cough, fever or difficulty in breathing, avoid any kind of exposure and immediately call the helpline numbers

Together we will fight COVID-19

For information related to COVID-19

Call Ministry of Health and Family Welfare, Government of India's 24x7 Control Room Number 1019 (Toll Free) 1-02-23196014. Email at covid19@mhfw.gov.in, covid19@govt.gov.in



mhfw.gov.in



[mhfwgovt](https://www.facebook.com/mhfwgovt)



[mhfw_govt](https://twitter.com/mhfw_govt)



[mhfwgovt](https://www.youtube.com/channel/UC9w3K8tE7133681kX130Ug)

design: 870075, 3, 1000, 81070900



Ministry of Health & Family Welfare
Government of India



Help us to
help you



NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

COVID-19 testing - when and how?

All individuals need not be tested, because

Disease is primarily reported in individuals with travel history to the affected countries or close contacts of positive cases.

WHOM TO TEST

ALL symptomatic people who

- Have history of international travel in last 14 days
- Had come in contact of confirmed cases
- Are healthcare workers
- Are hospitalized patients with Severe Acute Respiratory Illness (SARI) or Influenza Like Illness (ILI) or severe pneumonia.

Asymptomatic direct and high-risk contacts of confirmed cases should be tested once between day 5 and day 14 of coming in bluffer contact. Direct and high-risk contact include:

- Those living in same household with a confirmed case
- Healthcare workers who examined a confirmed case without adequate protection as per WHO recommendations

List of labs (Govt. & Private) can be accessed at: icmr.nic.in

For further information:

Call the tolls helpline numbers of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India 24x7 helpline numbers

1075 (Toll Free) | 011-23978046

Email to: nov2019@icmr.in, nov2019@gmail.com



icmr.nic.in



[icmrindia](https://www.facebook.com/ICMRIndia)



[@icmr_india](https://twitter.com/icmr_india)



[icmrindia](https://www.youtube.com/channel/UCv3U8p1K1G1G1G1G1G1G1G1G1)



स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण विभाग
भारत सरकार



Help us to
help you



नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

COVID-19 परीक्षण की आवश्यकता – कब और कैसे?

सभी व्यक्तियों की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

सुझाव है कि सभी व्यक्तियों में जांच नहीं की जाए, क्योंकि COVID-19 से प्रभावित लोगों की जांच की हो या संक्रमित व्यक्ति को संचरकों में रहे हो

किन लोगों का परीक्षण करना है

उन सभी व्यक्तियों का, जिनमें लक्षण मौजूद हो और

- जिन्होंने पिछले 14 दिनों में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो
- जो किसी संक्रमित व्यक्ति को संचरकों में आने हो
- जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
- अस्पतालों में नती सैरिंग एक्टिव रेस्पिरेटरी इलनेस (SARI), इन्फ्लुएंजा लक्षण इलनेस (ILI) या सैरिंग निरोधिका जैसी बीमारियों को सभी सटीक

ऐसे लक्षण-रहित व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम संचरकों में आए हो, उनका परीक्षण एक बार संचरकों में आने के 14 दिनों और 14 दिनों के बीच में किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संचरकों निम्न हैं:

- जो संक्रमित व्यक्ति को संचरकों में एक ही घर में रहे हो
- जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, एच.डी.) द्वारा प्रमाणित परीक्षा सुझाव मानकों के बिना किसी संक्रमित व्यक्ति की जांच की हो

जांच के लिए सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: kcrn.nic.in

अधिक जानकारी के लिए

राज्य हेल्थ/एच.डी. विभाग का संचरकों एवं सैरिंग कल्याण विभाग,
राज्य स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण विभाग पर संचरकों

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com





Ministry of Health & Family Welfare
Government of India



Help us to
help you



NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Protective measures against Coronavirus



A distance of at least 1 meter is necessary to ensure safety for all



Wash your hands with soap and water regularly



If soap and water is not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol



Wash hands before touching eyes, nose and mouth



Throw used tissues into closed bins immediately after use



Cover your nose and mouth with handkerchief/tissue while sneezing and coughing



Avoid mass gathering and crowded places

If you are experiencing symptoms like fever, cough or difficulty in breathing, please call the state helpline number or 24x7 helpline numbers of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and follow the instructions.

design: 17/03/2020/10/2020

1075 (Toll Free) | 011-23978046

Email for: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com

[#atthegovin](#) [@atthegovin](#) [atthegovin_NCA](#) [atthegovin](#)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भारत सरकार



Help us to
help you



नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

कोरोनावायरस से बचाव के उपाय



आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी,
सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी



आपने हाथों को साबुन-पानी
साफुन और पानी से धोएं।



बाजार और सभी जगहों पर हों भी,
साथ में साबुन-पानी, आंखों-पानी-आंखों
द्वारा संक्रमण का खतरा न हो



आपने आंखों, नाक और मुँह को छूने
से बचने हाथों को धो लें



सबसे कम से कम, सिर्फ़ को
दुपट्टा में ढकें, सुरक्षा में बनें



दोस्तों और लोगों के साथ आपने नाक
और मुँह को साफ़, सिर्फ़ से न करें



सामाजिक जगहों पर और
भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें

आपने साबुन, आंखों का पानी जैसे से जैसी-जैसी किसे साफ़ को साफ़ कर लें, वे सुरक्षा वाले संक्रमण सेना का खतरा को भीड़-भाड़ में बचाने, आपने साफ़
के 1 मीटर दूरी-दूरी सेना का खतरा को और सिद्धों का खतरा को

© 2020 Health Dept. India

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल को: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com



health.gov.in



[ncov2019](https://www.facebook.com/ncov2019)



[ncov2019](https://twitter.com/ncov2019)



[ncov2019](https://www.youtube.com/ncov2019)



TRAVELLERS RETURNING TO INDIA



Inform the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing



Wash hands from the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing and wear it at all times



Avoid close contact with family members or fellow travellers



Follow the directions of airline crew while disembarking



At airport, provide your travel itinerary and submit Self-reporting Form to Report Health Officer



If you have returned from fever-affected countries* in the past 14 days and have cough, fever or difficulty in breathing, **call the helpline number immediately** and follow the instructions

*List of countries affected by COVID-19: <https://www.moh.gov.in>

Stay protected!

Stay safe from Novel Coronavirus!

Contact **1075** Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

1075 and **+91-11-23978046**
ncov2019@gmail.com



भारत वापस लौटने वाले यात्री



यहाँ आनासे पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सहायता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के खतरों को कम करता है।



यहाँ आनासे पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सहायता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के खतरों को कम करता है।



यहाँ आनासे पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सहायता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के खतरों को कम करता है।



यहाँ आनासे पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सहायता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के खतरों को कम करता है।



यहाँ आनासे पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सहायता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के खतरों को कम करता है।



यहाँ आनासे पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सहायता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के खतरों को कम करता है।

यहाँ आनासे पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सहायता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के खतरों को कम करता है।

सुरक्षित रहें! नौकल कोरोना वायरस से बचे रहें!

भारत का जीवन वापस सामान्य बनाने के लिए 1075 या +91-11-23978046
mca2020@ignnmail.com



Ministry of Health & Family Welfare
Government of India



Help us to
help you



NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

When to wear a Mask?

Everyone NEED NOT WEAR a mask!

Only wear a mask if

- You have symptoms (Cough, fever or difficulty in breathing)
- You are **caring for** a COVID-19 suspect/confirmed patient
- You are a **health-worker** attending to patients with respiratory symptoms

While wearing a mask, make sure you:



• Unlike the pleats of the mask, make sure that they are facing down.



• Place the mask over your nose, mouth and chin and ensure there are no gaps on either side of the mask, adjust to fit.



• Avoid touching the mask, while using it.



• Do not reuse the mask hanging from the neck.



• Change the mask after six hours or as soon as they become wet.



• Never reuse disposable masks and dispose the used masks into closed bins after disinfecting them.



• Do not touch the potentially contaminated outer surface of the mask, while removing it.



• After removal of mask, clean your hands with soap and water or use alcohol-based hand rub disinfectant.

Together we can fight COVID-19!

For further information call
Ministry of Health & Family Welfare,
Government of India's
24x7 central number

1075 (Toll Free) | 011-23978046

Email at ncov2019@gmail.com



[whatsapp](#)



[facebook](#)



[twitter](#)



[youtube](#)

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India



Help us to help you

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



Protect yourself and others!

Follow these Do's and Don'ts

Do's



Practice frequent hand washing. Wash hands with soap and water or use alcohol based hand rub. Wash hands even if they are not sticky.



Cover your nose and mouth with tissue/cloth/tissue while sneezing and coughing.



Wipe used tissues into closed bins immediately after use.



See a doctor if you feel unwell (fever, difficulty breathing and cough). While visiting doctor wear a mask/face to cover your mouth and nose.



If you have these symptoms/fever please call State helpline number or Ministry of Health & Family Welfare's 24x7 helpline at 011-23979046.



Avoid participating in large gatherings.



Avoid a close contact with anyone if you're experiencing cough and fever.



Touch your eyes, nose and mouth.



Sneeze in public.

Don'ts

Together we can fight Coronavirus

For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India's 24x7 control room number +91-11-2397 9046

Email at ncov2019@gmail.com

